



संख्याओं के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$9 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$47 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$23 \times 50\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$93 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$14 \times 50\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$13 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$72 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$98 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$5 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$21 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$79 \times 70\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$10 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$75 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$61 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$79 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$42 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$91 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$30 \times 70\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$86 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$



संख्याओं के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$9 \times 90\% = 8.1$$

$$47 \times 20\% = 9.4$$

$$23 \times 50\% = 11.5$$

$$93 \times 20\% = 18.6$$

$$14 \times 50\% = 7$$

$$7 \times 90\% = 6.3$$

$$13 \times 10\% = 1.3$$

$$72 \times 30\% = 21.6$$

$$98 \times 20\% = 19.6$$

$$5 \times 10\% = 0.5$$

$$21 \times 20\% = 4.2$$

$$79 \times 70\% = 55.3$$

$$10 \times 10\% = 1$$

$$75 \times 60\% = 45$$

$$61 \times 10\% = 6.1$$

$$79 \times 90\% = 71.1$$

$$42 \times 60\% = 25.2$$

$$91 \times 90\% = 81.9$$

$$30 \times 70\% = 21$$

$$86 \times 60\% = 51.6$$